



भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित)

सैक्टर-81, नॉलेज सिटी, पो. ओ. मनौली, एस. ए. एस. नगर, मोहाली, पंजाब -140306

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH MOHALI

(Estd. By Ministry of Education, Govt. of India)

Sector – 81, Knowledge City, P.O. Manauli, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab -140 306

• Phone: +91-172-2240086 • Fax: +91-172-2240124 • Email: recruitment@iisermohali.ac.in • <http://www.iisermohali.ac.in>

Advt. No. IISER M/ NF (9)/Regular/2022

Date: 23-06-2022

गैर संकाय पदों के लिए भर्ती/ RECRUITMENT FOR NON-FACULTY POSITIONS

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली (आईआईएसईआर) मोहाली, राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है, जिसे भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन एमएचआरडी) द्वारा 2007 में विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है।

The Indian Institute of Science Education and Research (IISER) Mohali, an Institute of National Importance, established by the Government of India, MoE (erstwhile MHRD) in 2007 to carry out research in frontier areas of Science and provide quality Science Education & Research at the undergraduate and post graduate levels.

संस्थान नियमित आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए भारत के समर्पित, प्रतिबद्ध और योग्य नागरिक की तलाश कर रहा है:-

The Institute is looking for dedicated, committed and eligible citizen of India to fill up the following vacancies on regular basis:-

1	पोस्ट कोड/Post Code	01
2	पद का नाम /NAME OF THE POST	सहायक लाइब्रेरियन - ग्रुप "ए"/ ASSISTANT LIBRARIAN – GROUP "A"
3	पदों की संख्या /Number of posts	01 अनारक्षित/(UR)
4	अनारक्षित पद के लिए ऊपरी आयु सीमा / Maximum age Limit for UR position	40 वर्ष /years
5	वेतनमान /Scale of the Pay	अकादमिक वेतन स्तर -10 (₹ 57700-182400) - समूह "ए"/ Academic Pay Level-10 (Rs.57700-182400) – Group "A"
6	आवश्यक योग्यता / Essential Qualifications	आवश्यक /Essential: शैक्षणिक योग्यता/Educational qualification: (i) लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में मास्टर डिग्री या समकक्ष पेशेवर डिग्री, कम से कम 55% अंकों के साथ (या एक पॉइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है)। (ii) पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड। (iii) उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवार को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनई) या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इसी तरह की परीक्षा जैसे एसएलईटी / एसईटी या पीएचडी से सम्मानित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार डिग्री (एम. फिल/पीएचडी डिग्री के अवार्ड के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियमन, 2009 या 2016 और समय-समय पर

उनके संशोधन, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि, पीएचडी के लिए पंजीकृत उम्मीदवार 11 जुलाई 2009 से पहले की डिग्री, डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी और ऐसे पीएचडी उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन विश्वविद्यालय / कॉलेजों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पद की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट / एसएलईटी / सेट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

ए) उम्मीदवार की पीएच.डी डिग्री नियमित मोड में प्रदान की गई है;

बी) पीएचडी डिग्री का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया है;

सी) उम्मीदवार की ओपन पीएचडी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है

डी) उम्मीदवार ने अपने पीएचडी कार्य से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं जिनमें से कम से कम एक संदर्भित पत्रिका में है;

ई) उम्मीदवार ने यूजीसी / आईसीएसएसआर / सीएसआईआर या इसी तरह की एजेंसी द्वारा सम्मेलन / सेमिनार / प्रायोजित / वित्त पोषित / समर्थित अपने पीएचडी कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किए हैं।

टिप्पणी:

- (i) इन शर्तों की पूर्ति को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव या डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
- (ii) ऐसे मास्टर प्रोग्राम में उम्मीदवारों के लिए नेट/स्लेट/सेट की भी आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए यूजीसी, सीआईएसआर या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/सेट द्वारा नेट/एसएलईटी/सेट पर विचार नहीं किया जाता है।

(i) Master's degree in Library Science, Information Science or Documentation Science or an equivalent professional degree, with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed).

(ii) A consistently good academic record, with knowledge of computerization of library.

(iii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standard and Procedure for Award of M. Phil/Ph.D. Degree) Regulation, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be:

Provided that the, candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bye laws / Regulations of the Institutions awarding the degree, and such Ph. D candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent position in University / Colleges /Institutions subject to the fulfillment of the following conditions.

A) The Ph.D degree of the candidate has been awarded in the regular mode

B) The Ph.D degree has been evaluated by at least two external

	<p>examiners;</p> <p>C) Open Ph.D viva voce of the candidate has been conducted</p> <p>D) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D work out of which at least one is in a referred journal;</p> <p>E) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conference / seminars/ sponsored / funded / supported by the UGC/ ICSSR/CSIR or similar agency.</p> <p>Note:</p> <p>(i) The fulfillment of these conditions is to be certified by the Registrar or Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</p> <p>(ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not considered by UGC, CISR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET</p> <p>अनुभव /Experience:</p> <p>(i) केंद्रीय या राज्य शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों से वेतन स्तर -7 या उससे ऊपर (5 वर्ष) / वेतन स्तर -6 या उससे ऊपर (6 वर्ष) का पुस्तकालय सूचना सहायक / पुस्तकालय सूचना अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>(i) 5 Years' experience as Library Information Assistant / Library Information Officer in the Pay Level-7 or above (5 years) / Pay level-6 or above (6 years) from Central or State Educational and Research Institutes.</p> <p>वांछनीय / Desirable:</p> <p>(i) लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में पीजी डिप्लोमा या पीजीडीसीए या समकक्ष।</p> <p>(i) PG Diploma in Library Automation and Networking or PGDCA or equivalent.</p>
--	--

पोस्ट कोड/Post Code	02
पद का नाम /NAME OF THE POST	नर्स - ग्रुप " बी " - NURSE/- GROUP "B" -
पदों की संख्या /Number of posts	कुल पद/ Total Posts 01 अनारक्षित /(UR)
अनारक्षित पद के लिए ऊपरी आयु सीमा / Maximum age Limit for UR position	35 वर्ष / years
वेतनमान /Scale of the Pay	वेतन स्तर -7 (रु 44900-142400) - समूह " बी"/ Pay Level-7 (Rs. 44900-142400)- Group "B"

आवश्यक योग्यता / Essential Qualifications	आवश्यक /Essential: शैक्षणिक योग्यता/Educational qualification: i) <u>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थानों से नर्सिंग में मास्टर डिग्री (50% अंकों के साथ) ।</u> ii) <u>भारतीय नर्सिंग परिषद / राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।</u> i) Master’s Degree (with 50% marks) in nursing from recognized University/Institutions. ii) Should be registered as Nurse & Midwife in Indian Nursing Council/ State Nursing Council. अनुभव /Experience: (i) <u>केंद्र/राज्य सरकार/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में 4 वर्ष का नैदानिक अनुभव।</u> (i) 4 years clinical experience in minimum 50 bedded hospital recognized by Central/State Govt/ Medical Council of India. वांछनीय /Desirable: (i) <u>नए चिकित्सा उपकरण, एक्स-रे मशीन, ईसीजी, सोनोग्राफी आदि के संचालन का कार्यसाधक ज्ञान।</u> (i) Working knowledge in operation of New Medical Equipment, X-ray machine, ECG, Sonography etc.
--	---

पोस्ट कोड/Post Code	03
पद का नाम /NAME OF THE POST	निजी सहायक - ग्रुप " बी "- PERSONAL ASSISTANT/- GROUP “B” -
पदों की संख्या /Number of posts	कुल पद/ Total Posts 01 अनारक्षित /(UR)
अनारक्षित पद के लिए ऊपरी आयु सीमा / Maximum age Limit for UR position	30 वर्ष / years केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक की छूट Relaxable for departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt
वेतनमान /Scale of the Pay	वेतन स्तर -6 (रु 35400-112400) - समूह " बी"/ Pay Level-6 (Rs. 35400-112400)– Group “B”
आवश्यक योग्यता / Essential Qualifications	आवश्यक /Essential: शैक्षणिक योग्यता/Educational qualification: (i) <u>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष।</u> (ii) <u>आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति।</u> (i) Bachelor’s degree in any discipline or its equivalent from a recognized University/Institute. (ii) Minimum speed of 100 w.p.m. in stenography

पोस्ट कोड/Post Code	04
पद का नाम /NAME OF THE POST	वैज्ञानिक सहायक - ग्रुप " बी " - SCIENTIFIC ASSISTANT- GROUP "B" -
पदों की संख्या /Number of posts	कुल पद/ Total Posts 02 अनारक्षित /(UR)
अनारक्षित पद के लिए ऊपरी आयु सीमा / Maximum age Limit for UR position	35 वर्ष / years
वेतनमान /Scale of the Pay	वेतन स्तर -6 (रु 35400-112400) - समूह " बी"/ Pay Level-6 (Rs. 35400-112400)- Group "B"
आवश्यक योग्यता / Essential Qualifications	<p>आवश्यक /Essential:</p> <p>शैक्षणिक योग्यता/Educational qualification:</p> <p>(i) बी.ई./बी.टेक. / एमएससी उपयुक्त क्षेत्र में कम से कम 55% अंकों के साथ।</p> <p>(i) B.E. / B.Tech. / M.Sc. with at least 55% marks in appropriate field.</p> <p>अनुभव /Experience:</p> <p>(i) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रयोगशाला/शैक्षणिक/अनुसंधान/बहुराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में उन्नत परिष्कृत उपकरण/अनुसंधान उपकरण जैसे एनएमआर, एक्सआरडी, ईपीआर आदि को संभालने में 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।</p> <p>(i) 3 years relevant experience in handling advanced sophisticated instrumentation / research equipment such as NMR, XRD, EPR etc. in a laboratory / Academic / Research / Multinational Academic establishment of National / International Repute.</p> <p>वांछनीय अनुभव /Desirable Experience:</p> <p>(i) केंद्र / राज्य सरकार / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / सरकारी स्वायत्त संगठन / सरकारी विश्वविद्यालय / सरकार। नियमित आधार पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में 3 साल का कार्य अनुभव।</p> <p>(i) 3 years working experience in Central / State Govt. / Semi-Govt. / PSU / Govt. Autonomous organizations / Govt. Universities / Govt. Institutes of national importance on regular basis.</p>

पोस्ट कोड/Post Code	05
पद का नाम /NAME OF THE POST	कार्यालय सहायक (एमएस) - ग्रुप " सी " - OFFICE ASSISTANT (MS) /- GROUP "C" -
पदों की संख्या /Number of posts	कुल पद/ Total Posts 07 (अनारक्षित /UR-04, ईडब्ल्यूएस /EWS-01, अनुसूचित जाति/SC-01 & अनुसूचित जनजाति/ST-01) (बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति और पूर्व सैनिकों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है/Person with Bench mark Disability and Ex-servicemen are encouraged to apply)
अनारक्षित पद के लिए ऊपरी आयु सीमा / Maximum age Limit for UR position	30 वर्ष / years
वेतनमान /Scale of the Pay	वेतन स्तर -5 (रु 29200-92300) - समूह " सी " / Pay Level-5 (Rs. 29200-92300)- Group "C"

<p>आवश्यक योग्यता / Essential Qualifications</p>	<p>आवश्यक /Essential: <u>शैक्षणिक योग्यता/Educational qualification:</u></p> <p>(i) पर्याप्त टाइपिंग गति के साथ किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, ऑफिस एप्लिकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट आदि में दक्षता।</p> <p>(i) Bachelor's Degree with at least 55% marks in any discipline with sufficient typing speed, proficiency in office application like Word, Excel, Power Point etc.</p> <p><u>अनुभव /Experience:</u></p> <p>(i) किसी भी केंद्र / राज्य सरकार या इसी तरह की संगठित सेवाएं प्रदान करने वाले अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / सरकारी स्वायत्त संगठन / सरकारी विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय महत्व के सरकारी संस्थान में कार्यालयीन कार्य करने और उपकरण संभालने / कंप्यूटर अनुप्रयोगों के ज्ञान का 2 साल का प्रासंगिक अनुभव।</p> <p>(ii) सचिवीय कार्य / स्थापना / वित्त और लेखा / स्टोर और खरीद / कानूनी / शैक्षणिक मामलों आदि में अनुभव।</p> <p>(i) 2 years of relevant experience in handling Office works & equipment/knowledge of computer applications in any Central/State Govt. or similar organized services. Semi-Govt./ PSU/ Govt. Autonomous organization / Govt Universities/ Govt Institute of national importance.</p> <p>(ii) Experience in Secretarial work / establishment/ Finance & Accounts / Stores & Purchase / Legal / Academic Affairs etc.</p> <p><u>वांछनीय योग्यता /Desirable Qualification:</u></p> <p>(i) किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ।</p> <p>(ii) हिंदी/अंग्रेज़ी में आशुलिपि ।</p> <p>(i) Master's degree in any discipline.</p> <p>(ii) Shorthand in Hindi/English.</p> <p><u>वांछनीय अनुभव/Desirable Experience:</u></p> <p>(i) केंद्रीय/राज्य सरकार/अर्ध-सरकारी/पीएसयू/सरकारी स्वायत्त संगठन/सरकारी विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के सरकारी संस्थानों में नियमित आधार पर कार्य करने का अनुभव।</p> <p>(i) Working experience in Central/State Govt./ Semi-Govt./ PSU /Govt Autonomous organization / Govt Universities /Govt Institutes of national importance on regular basis.</p>
---	--

Last date of submission of application forms is 25-07-2022 up to 5.00 p.m.

GENERAL CONDITIONS:

1. The applicant must be a citizen of India.
2. All the above positions are regular.
3. All applicants must fulfill the essential requirements of the posts and other conditions stipulated in the advertisement as on the last date for receipt of the application. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the minimum essential qualifications laid down for the post which are compulsory even if a candidate has some other higher qualifications. No enquiry asking for advice as to eligibility will be entertained.

The prescribed essential qualifications are the minimum. Mere possession of the same does not entitle candidates to be called for test/interview. **The duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short-listing the candidates. The candidate should, therefore, mention in the Application Form all the qualifications and experience in the relevant area over and above the minimum prescribed qualification, supported with documents and ensure that all details are in full and accurate.**

4. The application should be accompanied by self-attested copies of the relevant documents/certificates in support of age, educational qualifications, marks obtained, experience, caste/community/ class (if applicable), etc. The prescribed qualifications should have been obtained through recognized Universities/ Institutions, etc. Incomplete applications/applications received after due date or not accompanied with the required self-attested certificates/documents; requisite application fee **is liable to be rejected.**
5. **The period of experience rendered by a candidate on part time basis, daily wages, etc. will not be counted while calculating the valid experience** for short listing the candidates for written test/interview.
6. **PERSON WITH BENCH MARK DISABILITY AND EX-SERVICEMEN FULFILLING THE ELIGIBILITY CONDITIONS PRESCRIBED UNDER GOVERNMENT OF INDIA INSTRUCTIONS ARE ENCOURAGED TO APPLY.**
7. Experience for the positions mentioned in the advertisement will be reckoned from the date of acquiring the qualification prescribed for the position.
8. The decision of the Director, IISER Mohali in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of any/all applications, fixing the eligibility criteria, equivalence of qualifications, mode of screening/selection, conduct of examination/interview, not to fill the vacancy, will be final and binding on the candidates.
9. Applicants must disclose as to whether any of their close or blood relatives are employees of IISER Mohali. Close relations would include wife/ husband/ son/ daughter/ brother/ sister/ son-in-law/ daughter-in-law and those who could be termed as blood relations.
10. The number of vacancies indicated in the notification is tentative. IISER Mohali reserves the right to increase or decrease the number of advertised posts at the time of selection. Further, IISER Mohali also reserves the right NOT to fill any of the post advertised.
11. **NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDENCE SHALL BE ENTERTAINED.**
12. Canvassing in any form and/or bringing any influence political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.
13. The qualifications prescribed shall have been obtained from recognized Universities/Institutions.
14. Applications received through email/incomplete/not on prescribed format/ unsigned/not having attached educational qualification/ experience documents will not be entertained/accepted.
15. If it is found at any stage that any information given in the application is incorrect/false, the candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated on that ground.
16. Candidates should keep their email id and mobile number provided in the application form active. Institute will not be liable to be responsible for non-receipt/delay in receipt of any communication due to deactivation of email id and or mobile number given or due to change in communication address etc.
17. Candidates should check/visit Institute website regularly for any update on recruitment process. Institute will not be responsible for delay in information in this regard.
18. The last date for receipt of applications shall be the date for determining the upper age limit, qualifications and experience.
19. **The Institute may conduct the written test/trade test for the post, in view of the number of applications received for the post.**
20. **Relaxation/concessions of age:**

- a) The maximum age limit for the post shall be the same as mentioned above against the post. The age shall be determined as on the last date of the submission of the application form, mentioned in the advertisement.
- b) Age is relaxable for 5 years for SC/ST candidates and 3 years for OBC-NCL candidates.
- c) Age relaxation to the departmental candidates will be in accordance with the instructions or orders of the GoI.
- d) Candidates belonging to other eligible categories shall have relaxation as per GoI norms.
- e) The Institute follows the reservation norms as per GoI rules for SC/ST/OBC-NCL/PwBD/EWS/ExS. Candidates seeking reservations benefits available for SC/ST/OBC-NCL/PwBD/EWS/ExS must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed by GoI in support of their claim at the time of application. PwBDs will be entitled to all exemptions, relaxations benefit as per GoI guidelines.

HOW TO APPLY-

1. Application Form may be downloaded from the Institute website (www.iisermohali.ac.in). The application, duly filled in and completed in all respects should be submitted along with self- attested copies of all certificates (educational, experience, technical/professional qualification etc) & testimonials with a recent passport size photograph.
2. The Application Form duly filled in the prescribed format and complete in all respects accompanied with self-attested copies of the certificates, mark sheets, testimonials in support of age, education qualifications, experience, caste/ community/ class (if applicable), along with recent passport size self-signed photograph affixed on the Application Form, proof of payment of fee via online mode should be sent to **“The Recruitment Cell, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali, Sector-81, Knowledge City, S.A.S. Nagar, P.O. Manauli, Mohali, Punjab–140306 by due date positively.**
3. **The envelope containing the complete application must be superscribed as “Application for the post of _____ and Post Code _____”.**
4. **Applicant is required to send the synopsis (format available on Institute website) by email to recruitment@iisermohali.ac.in. While sending the synopsis sheet duly filled, it should remain editable.**
5. **Separate application form should be submitted for each post.**
6. Application once made will not be allowed to be withdrawn and fees once paid will not be refunded on any count nor can it be held in reserve for any other recruitment or selection process.
7. Applications from employees of Government Departments, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies and Government Funded Research Agencies will be considered only if forwarded **THROUGH PROPER CHANNEL**, with a clear certificate that there is no vigilance case pending/being contemplated against him/her. However, advance copy of the application should be submitted before the closing date but Applications routed through proper channel should reach IISER Mohali at the earliest [*should be available at the time of screening of the applications*], without which the candidates will not be considered for screening/allowed to appear for the test, *if any*, interview.
8. Incomplete applications i.e. applications without photographs, without the required attested copies of certificates, testimonials etc. without application fee, not in the prescribed application form, missing page of application form, unsigned or incomplete in any manner will not be entertained and will be summarily rejected.
9. Candidates should specifically note that the applications received after the closing date for receipt of applications for any reason whatsoever (such as envelopes wrongly addressed, delivered elsewhere, postal delay etc.) will not be entertained/ will be summarily rejected.
10. **If there is any corrigendum/addendum, it shall be published on Institute’s website only.**
11. **Candidates must pay online application fee of Rs. 500/- for GEN/OBC-NCL/EWS/ExS. Fee is exempted for SC/ST/PwBD/ Women Candidates of any community. Fee by any other mode of payment will not be accepted. Fee once paid shall not be refunded under any circumstances. The candidates are required to pay online application fee only in ICICI Bank by NEFT/RTGS/UPI/IMPS. A copy of proof having paid the application fee must be attached with the Application Form. For payment of fee click [Ctrl + Application Fee Payment](#).**